

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2006

का.आ. 506(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 366 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार कनोरिया सेवा केन्द्र, 307, अभिजीत नेताजी मार्ग, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा गांधी नगर, गुजरात में कनोरिया अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र के विस्तारित भवन का निर्माण, उपकरणों/उपस्करों की खरीद, चलती फिरती वैन, साज-सज्जा और संचालन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 3 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 10 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं० 981 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की कनोरिया सेवा केन्द्र, 307, अभिजीत नेताजी मार्ग, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा गांधी नगर, गुजरात में कनोरिया अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र के विस्तारित भवन का निर्माण, उपकरणों/उपस्करों की खरीद, चलती फिरती वैन, साज-सज्जा और संचालन की परियोजना या स्कीम को अनुमानित लागत अर्थात् 161.81 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।